



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2014 (श्रावण 25, 1936)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2014 (SRAVANA 25, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली—110025

तुलन—पत्र, 31 मार्च 2013

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	2	3	4
पूँजीगत निधि	1		-
उद्दिष्ट/स्थायी निधियां	2	40,39,14,215	39,33,09,291
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	6,92,94,33,006	6,22,57,52,226
योग		7,33,33,47,221	6,61,90,61,517

1	2	3	4
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक)	4	4,36,45,40,724	3,76,81,93,592
उद्दिष्ट / स्थायी निधियों में निवेश	5	21,55,79,130	30,96,25,630
निवेश – अन्य	6	2,35,980	2,35,980
चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम	7	2,05,04,35,252	1,88,33,74,351
अवर्णित विविध व्यय		70,25,56,135	65,76,31,964
(पूँजीगत निधि में नामे शेष)			
योग		7,33,33,47,221	6,61,90,61,517

हस्ताक्षर सहायक कुलसचिव (लेखा)	हस्ताक्षर उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर कुल सचिव
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

A. आय

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	2	3	4
सहायता अनुदान / सब्सिडी	8	2,08,21,18,780	1,73,54,39,954
अकादमिक प्राप्ति	9	11,27,03,980	11,11,88,617
प्रकाशन से आय	10	1,00,028	34,421
निवेश से आय	11	35,598	35,598
अर्जित ब्याज	12	6,59,21,854	5,11,42,259
अन्य आय	13	5,43,87,411	5,08,17,887
योग (A)		2,31,52,67,651	1,94,86,58,736

(राशि रुपये में)

1	2	3	4
B. व्यय			
स्थापना व्यय	14	2,49,38,91,894	2,32,57,00,088
अकादमिक व्यय	15	10,63,33,095	7,81,34,853
प्रशासनिक व्यय	16	16,45,93,516	17,18,45,694
मरम्मत एवं रख रखाव	17	7,06,24,623	9,55,17,545
विविध व्यय	18	12,10,95,826	5,88,88,980
मूल्यहास	4	16,06,92,408	15,80,03,053
योग (B)		3,11,72,31,362	2,88,80,90,213
अधिशेष के रूप में शेष / (घाटा), पूंजीगत निधि द्वारा वहन (A-B)		-80,19,63,711	-93,94,31,477

हस्ताक्षर
सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
कुल सचिव

JAMIA MILLIA ISLAMIA
New Delhi-110025
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2013

Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Capital Fund	1		-
Earmarked / Endowment Funds	2	40,39,14,215	39,33,09,291
Current Liabilities and Provisions	3	6,92,94,33,006	6,22,57,52,226
Total		7,33,33,47,221	6,61,90,61,517

Assets

Fixed Assets (Net Block)	4	4,36,45,40,724	3,76,81,93,592
Investments from Earmarked / Endowment Funds	5	21,55,79,130	30,96,25,630
Investments - Others	6	2,35,980	2,35,980
Current Assets, Loans & Advances	7	2,05,04,35,252	1,88,33,74,351
Miscellaneous Expenditure to the Extent not Written off (Debit balance in the Capital Fund)		70,25,56,135	65,76,31,964
Total		7,33,33,47,221	6,61,90,61,517

Sd/- Asstt. Registrar(A/Cs)	Sd/- Dy. Finance Officer	Sd/- Finance Officer	Sd/- Registrar
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2013

A. INCOME

(Amount in Rs.)			
Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
1	2	3	4
Grants in Aid /Subsidies	8	2,08,21,18,780	1,73,54,39,954
Academic Receipts	9	11,27,03,980	11,11,88,617
Income from Publications	10	1,00,028	34,421
Income from Investment	11	35,598	35,598
Interest Earned	12	6,59,21,854	5,11,42,259
Other Income	13	5,43,87,411	5,08,17,887
Total (A)		2,31,52,67,651	1,94,86,58,736

1	2	3	4
B. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	14	2,49,38,91,894	2,32,57,00,088
Academic Expenses	15	10,63,33,095	7,81,34,853
Administrative Expenses	16	16,45,93,516	17,18,45,694
Repairs and Maintenance	17	7,06,24,623	9,55,17,545
Miscellaneous Expenses	18	12,10,95,826	5,88,88,980
Depreciation	4	16,06,92,408	15,80,03,053
Total (B)		3,11,72,31,362	2,88,80,90,213
Balance Being the Deficit carried to Capital Fund (A-B)		-80,19,63,711	-93,94,31,477

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Asstt. Registrar(A/Cs)	Dy. Finance Officer	Finance Officer	Registrar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in